

LEGAL AID CLINIC

at
Women Probation Home, Namkum, Ranchi

Under the aegis of Jharkhand State Legal Services Authority a Legal Aid Clinic was inaugurated at Women Probation Home, Namkum, Ranchi by **Hon'ble Mr. Justice Altamas Kabir**, Judge, Supreme Court of India and Chairman, National Legal Services Authority, New Delhi and Madam Minna Kabir in the presence of **Hon'ble Mr. Justice Bhagwati Prasad**, Chief Justice, Jharkhand High Court and Patron-in-Chief, JHALSA; **Hon'ble Mr. Justice M.Y. Eqbal**, Chief Justice, Madras High Court; **Hon'ble Mr. Justice Sushil Harkauli**, Judge, Jharkhand High Court and Executive Chairman, JHALSA and other Hon'ble Judges of Jharkhand High Court, Registry Members of Jharkhand High Court, Deputy Commissioner, Ranchi, Lawyers and other dignitaries. The Legal Aid Clinic was inaugurated with an intent to help the inmates to become aware about their Legal Rights.

Hon'ble Mr. Justice Altamas Kabir and his Wife Madam Minna Kabir, the foster parents of the Probation Home shared their woes and sorrows with the inmates of the Probation Home and exchanged their pleasant memories and bond they had established with them. Justice Altamas Kabir enthralled the august gathering with His Lordship's heart touching views. Speaking on the occasion he said that he love these inmates like his daughters and wish they lead a normal life once they are out of this place. He also emphasized for the need of following a uniform pattern in all Probation Homes across the State of Jharkhand like the one in Namkum.

The Inauguration of the Legal Aid Clinic was followed by the cultural programme including dance and songs performed by the inmates of the Women Probation Home, Ranchi.





Madam Minna Kabir and other Hon'ble Guest inaugurating the Legal Aid Clinic

HINDUSTAN TIMES, RANCHI, TUESDAY, OCTOBER 12, 2010

Judge brings joy to probation home

Bedanti Sahoo

RANCHI: Khushi, five-year-old daughter of a rape victim, and several others in the women's probation home in Ranchi got a reason to rejoice on Monday. Supreme Court Judge Justice Altamas Kabir and his wife, Minna Kabir, foster parents of the probation home, spent time exchanging pleasantries, sharing their sweet and sour lives, and how it was comfortable.

The visit, however, was organised by the inauguration of a legal aid clinic in the premises of the home. Justice Kabir, along with

Chief Justice of Jharkhand and Chhattisgarh High Courts Justice Bhaskar Prasad and Justice MY Kishore respectively inaugurated the clinic that promises to help the inmates know their legal rights.

The probation home members received Justice Kabir and his wife, who championed the cause of distressed women. Girls of different age groups performed song and dance to welcome the guests.

Khushi, who was born at the probation home in 2005, is receiving primary education at the home.

She can sing and dance to the tune of the home's anthem.

I love these inmates like my daughters and I wish they lead a normal life once they are out of this place.

JUSTICE ALTAMAS KABIR
Supreme Court Judge

were once the inmates of the probation home and got married from there also came to meet their foster parents.

The home, which was once a dilapidated old rented building at Hatia, has been shifted

efforts.

Speaking on the occasion, Justice Kabir said that the Hatia-based probation home building was in a pathetic condition with no electricity and no water.

However, the women inmates were forced to live in a heartless condition. A successful effort was made and the government provided a new place and building at Namkum, Justice Kabir said.

He emphasised the need for a uniform pattern in all probation homes across the state as the one at Namkum.

"I love these inmates like my

of the place," said Justice Kabir's wife Minna Kabir, who frequently visits the place and has played a major role in ameliorate the inmates' condition. Later, Justice Kabir led the foundation stone of the upcoming staff quarters.

At Prasenjit Kumar Singh said the probation home in the last five years has been developed into a full-fledged facility. He intended to provide all kind of assistance that was needed in future.

Several sitting high court judges, members of the high court registry, lawyers and Ranchi deputy commissioners



Justice Altamas Kabir talks to Khushi, a five-year-old inmate, during the inauguration of a legal aid clinic at Jharkhand State Legal Services Authority (JHALSA) at Namkum in Ranchi on

Monday, October 12, 2010

हिन्दुस्तान 12

लीगल एड क्लिनिक से त्वरित न्याय मिलेगा: जस्टिस कबीर

क्लिनिक से न केवल प्रोबेशन होम के आवासीयों को कानूनी मदद मिल सकेगी

संवादकर्ता
नमसुख

राजधानी राँची में न्याय प्रोबेशन होम में बंसीका को लीगल एड क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अलतामस कबीर ने विभिन्न कानूनी मदद के अलावा कानूनी मदद के अलावा

एड क्लिनिक प्रोबेशन होम के आवासीयों को कानूनी मदद देने के लिए एक क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर न्याय प्रोबेशन होम के आवासीयों को कानूनी मदद देने के लिए एक क्लिनिक का उद्घाटन किया गया।

इस अवसर पर न्याय प्रोबेशन होम के आवासीयों को कानूनी मदद देने के लिए एक क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर न्याय प्रोबेशन होम के आवासीयों को कानूनी मदद देने के लिए एक क्लिनिक का उद्घाटन किया गया।

आवासीयों के बीच न्याय प्रोबेशन होम के आवासीयों को कानूनी मदद देने के लिए एक क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर न्याय प्रोबेशन होम के आवासीयों को कानूनी मदद देने के लिए एक क्लिनिक का उद्घाटन किया गया।

इस अवसर पर न्याय प्रोबेशन होम के आवासीयों को कानूनी मदद देने के लिए एक क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर न्याय प्रोबेशन होम के आवासीयों को कानूनी मदद देने के लिए एक क्लिनिक का उद्घाटन किया गया।

Legal cell opened at Women Probation Home

PRASAD RANCHI

Free legal advice from the experts is a ray of hope for the inmates of the Women Probation Home at Namkum. A legal aid clinic was inaugurated by Supreme Court judge and executive chairman of National

Legal Services Authority (NLSA) Altamas Kabir and his wife Minna Kabir on Monday.

This legal aid clinic is having two groups of two women lawyers each to provide assistance to inmates of the probation home who require any sort of legal help or advice regarding their case or any issue of their concern. This is a free and easy available help available for around 45 inmates under the Legal Services Authority Act, 1987. Very soon this service will expand itself for the residents of Namkum, who will benefit by the team of experts present in the clinic.



SC Judge Altamas Kabir with wife Minna Kabir, former Chief Justice Bhaskar Prasad and other dignitaries

Inaugurating the legal aid clinic, Justice Altamas Kabir said, "This legal aid clinic will prove to be helpful for the inmates of this probation home and for people of the nearby areas with the team of experts advising them on several laws of the country. Several women in this home were not aware of

their rights and the assistance the law provides to them and we have ended into this probation home. A legal awareness message if spread properly will help people extensively in knowing their rights."

A meditation centre was also inaugurated at the probation home by Justice Kabir

which will hold the video conferencing of meditation classes for four districts along with Ranchi namely Chaibasa, Jharia, Palamu and Seohar. Foundation stone for the staff quarters of the staff working for the probation home was also laid during the programme.

Kabir Kumar Srivastava, Member Secretary Jharkhand State Legal Services Authority (JHALSA) informed, saying, "Less awareness of the legal activities are spread across people and so we are planning to introduce Legal Awareness as a compulsory subject in class nine to inform the basics of law to children. This will enhance their knowledge on the law of the country and also increase their interest towards legal awareness. Also, Para legal volunteers are active in rural areas to inform and educate people about their rights regarding the laws."

स्नेहका बंधन | प्रोबेशन होम की बच्चियों के बीच भावविभार हां गए जस्टिस अलतामस कबीर

ओहदा बड़ा ममता वही

जल्द ही हजारों बच्चों को वही संभाला है, वह वेबल लवली वही प्रदान करता है। लेकिन वह सच अगले रिजल्ट परिलक्ष में दृष्ट लेती है। उस इन्फिनिटिवल घर लवली बच्चों को संभाले होगा। जब देव की सबसे बड़ी अलंकार के एक विधि को वह प्रियतम बच्ची को प्रियतम के बीच भावविभार के काल में वह सच और लवली के दिलों को प्रिय प्रिय बनाना। जस्टिस कबीर के जाने में लवली प्रेम प्रदान करेंगे वह अगले रूप में प्रिय ले मिल रही हो।

कबीर कुमार | को

मुंबई कोर्ट के जस्टिस अलतामस कबीर ने आज सुनवाई के दौरान प्रोबेशन होम की बच्चियों के बीच भावविभार के लिए वही संभाल प्रदान करने की लवली प्रियतम के काल में वह सच और लवली के दिलों को प्रिय प्रिय बनाना। जस्टिस कबीर के जाने में लवली प्रेम प्रदान करेंगे वह अगले रूप में प्रिय ले मिल रही हो।



मौन कबीर ने अलार्म की लवली घर में लवली



मिस्टर कबीर ने लवली घर में लवली



जस्टिस कबीर ने लवली घर में लवली



मां की ममता वही प्रदान



Hon'ble Mr. Justice Altamas Kabir, Judge, Supreme Court of India & Executive Chairman NALSA expressing his feeling for inmates of Probation Home

प्रभात खबर

रांची, मंगलवार, 12 अक्टूबर, 2010

राशि के अभाव में हक से वंचित रहना दुर्भाग्यपूर्ण

भारत सरकार के जस्टिस अलतामस कबीर ने आज सुनवाई के दौरान प्रोबेशन होम की बच्चियों के बीच भावविभार के लिए वही संभाल प्रदान करने की लवली प्रियतम के काल में वह सच और लवली के दिलों को प्रिय प्रिय बनाना। जस्टिस कबीर के जाने में लवली प्रेम प्रदान करेंगे वह अगले रूप में प्रिय ले मिल रही हो।



जस्टिस अलतामस कबीर ने आज सुनवाई के दौरान प्रोबेशन होम की बच्चियों के बीच भावविभार के लिए वही संभाल प्रदान करने की लवली प्रियतम के काल में वह सच और लवली के दिलों को प्रिय प्रिय बनाना। जस्टिस कबीर के जाने में लवली प्रेम प्रदान करेंगे वह अगले रूप में प्रिय ले मिल रही हो।

